

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 181]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 16 अप्रैल 2014—चैत्र 26, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2014

फा. क्र. 17 (ई) 61-2014-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला अशोकनगर हेतु लोकसभा निर्वाचन 2014 में निर्वाचन कार्य सम्पादित कराने के लिये, संलग्न सूची में उल्लिखित अधिकारियों को दिनांक 15 मार्च 2014 से दिनांक 16 मई 2014 तक सम्पूर्ण जिले के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. वर्मा, सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर मध्यप्रदेश
लोकसभा आम निर्वाचन 2014 हेतु कार्यपालिक दण्डाधिकारी के प्रस्ताव

| क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम एवं कार्यालय का नाम | सेवा क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालिक संवर्ग दण्डाधिकारियों की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है |
|------|------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) (5) |
| 1 | श्री विनोद कुमार चौधरी | सहायक यंत्री, मनरेगा जनपद पंचायत, मुंगावली | द्वितीय सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |
| 2 | श्री नवीन पटवा | सहायक प्राध्यापक, शा. नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर | प्रथम सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |
| 3 | श्री अनिल खंतवाल | व्याख्याता, शा. बा.उ.मा.वि., अशोकनगर | द्वितीय सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |
| 4 | श्री अशोक कुमार जैन | प्राचार्य, शा. बा.उ.मा.वि., अशोकनगर | द्वितीय सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |
| 5 | श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा | परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर | द्वितीय सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |
| 6 | श्री राघवेन्द्र सिंह नरवरिया | पशु चिकित्सा अधिकारी, बहादुरपुर | द्वितीय सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |
| 7 | श्री नितिन डोंगरे | कार्यपालन यंत्री, म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल मुंगावली | प्रथम सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |
| 8 | श्री आर.एल. शर्मा | अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, अशोकनगर | प्रथम सम्पूर्ण जिला अशोकनगर |